

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2025—पौष 16, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025

क्र. एफ-3-1-2021-1-दस.—राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. विजय कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त विशेष न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति, रीवा में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, अतिरिक्त मुख्य सचिव.